

कपास नई खोज



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र

देखें: www.cicr.org.in

अंक: 3 खंड: 1 जनवरी 18-24, 2015

केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, कोयंबतूर में पी.एम.ई का दौरा



केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयंबतूर में दि.19-21, जनवरी, 2015 के दौरान परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने दौरा किया। डॉ. के.आर. क्रांत, के.क.अ.सं., निदेशक, नागपुर की अध्यक्षता में समिति फसल संरक्षण, फसल उत्पादन और फसल सुधार के विभागों में वैज्ञानिकों द्वारा किए गये अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया।



समिति ने प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षण और प्रदर्शनों मुख्य क्षेत्र एवं नई खेत का अच्छी तरह दौरा किया। अंत में, अध्यक्ष अपनी समापन भाषण के साथ वैज्ञानिकों को संबोधित किया। डॉ. (श्रीमती) एस. उषा रानी, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

केंद्रीय कपास अनुसंधान, संस्थान, कोयंबतूर में तेलंगाना के कपास हितधारकों का दौरा



समूह, कृषि अधिकारियों और किसानों, ने दि.24.1.2015 को, श्री. अविनाशिलिंगम कृषि विज्ञान केन्द्र, कोयंबतूर में अपने तीन दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में के.क.अ.सं., कोयंबतूर का दौरा किया। डॉ. (श्रीमती). एस. उषा रानी मूल, उपलब्धियों और संस्थान की चल रही गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। डॉ. (श्रीमती). बी. धाराजोति ने कपास में उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एच.डी.पी.एस) के बारे में भी कपास में विभिन्न कीट प्रबंधन रणनीति के बारे में विवरण दिया। डॉ. शंकरनारायणन ने उच्च घनत्व रोपण प्रणाली और कपास में उपज बढ़ाने तकनीकों के बारे में प्रशिक्षुओं को सूचित किया। प्रशिक्षुओं ने विभिन्न के.क.अ.सं. के प्रौद्योगिकियों और एच.डी.पी.एस. के ऑन-फार्म प्रदर्शनों पर दौरा किया।

के.क.अ.सं., सिसा में स्वच्छता अभियान

के.क.अ.सं. और इसकी क्षेत्रीय केंद्र स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए साफ-सफाई हेतु प्रति सप्ताह कम से कम 2 घंटे आवंटित करने का फैसला किया है। के.क.अ.सं., में, क्षेत्रीय केंद्र, सिसा में दि.23 जनवरी, 2015 को कर्मचारीयों सक्रिय रूप से सफाई अभियान में भाग लिया एवं के.क.अ.सं. के आसपास क्षेत्र में कार्यालय परिसर, सड़कों और उद्यान साफ कर रहे थे।



निर्मित एवं प्रकाशित: डॉ. के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं, नागपुर
प्रमुख संपादक: डॉ. नदिनी गोक्टे-नाखडेकर
संपादकों: डॉ. जे.एन्नि शीबा, डॉ. विश्लेष नगरारे, डॉ. जे.अमुदा एवं डॉ. एम.शरवणन
जनसंचार माध्यम समर्थन एवं रूपांकन: डॉ. एम.सबेष एवं श्री. एस.सत्यकुमार
हिन्दी अनुवाद: श्रीमति. के.सुभश्री एवं डॉ. अ.हि.प्रकाश
निर्मित समर्थन: श्री. संजय कुश्वाहा

प्रमाण: कपास नई खोज अंक-3, खंड-1, 2015, भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

प्रकाशन टिप्पणी: यह समाचार पत्र आनलाईन <http://www.cicr.org.in/News Letter.html> में उपलब्ध है।
कपास नई खोज एक खुला उपयोग कपास समाचार पत्र है।

कपास नई खोज - के.क.अ.सं, समाचार पत्र केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र.
कार्यालय: पांजरी, एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लॉन्ट के पास, वर्धा रोड, नागपुर- 441 108.
दूरभाष: 07103-275536 फैक्स: 07103-275529; E-mail: cicrnagpur@gmail.com

